



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50]
No. 50]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 8, 1978/माघ 19, 1899
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 8, 1978/MAGHA 19, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1978

सांका०नि० 70(अ) —खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिये कतिपय नियमों का प्रारूप खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 25 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खंड 3, उपखंड (1) तारीख 8 फरवरी, 1977 के पृष्ठ 182-183 पर, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं० सांका०नि० 64(अ), तारीख 8 फरवरी, 1977 के के साथ प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उस से प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव उस तारीख से, जिस तारीख को उक्त राजपत्र की प्रति जमता को उपलब्ध करा दी गई हो, 30 दिन का अवसर होने तक मागे गये थे ;

और उक्त राजपत्र जनता को 8 फरवरी, 1977 को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और उक्त प्रारूप को वांछित जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण

301 GI/77

नियम, 1953 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (द्वितीय-संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 1978 को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में (जिसे इसमें इस के पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 2 में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायेगा, अर्थात् :—

“(ग) ‘प्रयोगशाला’ से केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला अभिप्रेत है।”

3. उक्त नियमों के नियम 3 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(2) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला, उसके स्तम्भ (2) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र की बाबत, अधिनियम या इन नियमों द्वारा उसे सीपे गये कृत्यों का पालन करेगी।

सारणी	
केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला का नाम	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)
(1) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर-570013	आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल महाराष्ट्र और तामिलनाडु के राज्य तथा लक्षद्वीप और पाण्डिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र।
(2) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, पूणे-411001	गुजरात और मध्यप्रदेश के राज्य तथा दादरा और नागर हवेली तथा गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र।
(3) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद- 201001	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्य तथा चंडीगढ़ और दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र।
(4) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता- 700016	आसाम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल के राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणा- चल प्रदेश तथा मिजोरम के संघ राज्य क्षेत्र।

[सं.पी. 15011/34/76-पी.एन. (एफ.एण्ड.एन.) (iii)]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 8th February, 1978

G.S.R. 70(E).—Whereas certain draft of the rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, were published by sub-section (1) of Section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), with the notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Planning (Department of Health), No. G.S.R. 64(E), dated the 8th February, 1977, at pages 181-182 of the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 8th February, 1977, inviting objections/suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of 30 days from the date on which the copies of the said Gazette were made available to the public;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 8th February, 1977;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 23 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food

Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely :—

RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Second Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the 1st April 1978.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

“(c) ‘Laboratory’ means a Central Food Laboratory;”.

Rule 3 of the said rules, shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(2) The Laboratory specified in column (1) of the Table below shall carry out the functions entrusted to it by the Act or these rules in respect of the local areas specified in the corresponding entry in column (2) thereof.

TABLE

Name of the Central Food Laboratory	Local Area
(1)	(2)
(i) The Central Food Laboratory, Mysore-570013.	The States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra and Tamil Nadu and the Union Territories of Lakshadweep and Pondicherry.
(ii) The Central Food Laboratory, Pune-411001.	The States of Gujarat and Madhya Pradesh, and the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli, and Goa Daman and Diu.
(iii) The Central Food Laboratory, Ghaziabad-201001.	The States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh and the Union Territories of Chandigarh and Delhi.
(iv) The Central Food Laboratory, Calcutta-700016.	The States of Assam, Bihar, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Orissa, Tripura and West Bengal, and the Union Territories of the Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh and Mizoram.”

[No. P. 15011/34/76-PH(F&N)(iii)]

सं०का०वि० 71(ख).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिये कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षा-नुसार, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और सूचना दी जाती है कि उक्त अधिसूचना पर विचार उक्त तारीख से 45 दिनों के अवधान के पश्चात् किया जायेगा जिस तारीख को वह राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध करा दिया जाता है।

उक्त प्रारूप नियम की बाबत किसी व्यक्ति से, इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व, प्राप्त किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1978 है।

2 खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में, नियम 12 में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—

“परन्तु ऐसे मामले में, जहाँ खाद्य निरीक्षक किसी खुले आधान में से कोई नमूना लेता है, वह उसी वस्तु के ऐसे आधान से भी, जो मूल वशा में हो और जिस पर वही घोषणा हो, यदि ऐसा आधान उपलब्ध हो तो, नमूना लेगा और इस तथ्य को लोक विश्लेषक को सूचित करेगा।”

[सं०पी० 15014/5/76-पी०एच०(एफ० एंड एन०)]

नरेन्द्र नाथ वोहरा, संयुक्त सचिव

G.S.R. 71(E).—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) is hereby published, as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of 45 days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public.

Any objections or suggestions received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1978.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, to rule 12, the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that in case where a food inspector draws a sample from an open container, he shall also draw a sample from the container in original condition of the same article having the same declaration, if such container is available, and intimate this fact to the public analyst”.

[No. 15014/5/76-PH(F&N)]

N. N. VOHRA, Jt. Secy.

